

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 1968/सां० 2, 1890

No. 293]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1968/DHADRA 2, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**CABINET SECRETARIAT**

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 23rd August 1968*

**S.O. 2884.**—The following Order made by the President on August 21, 1968, is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes, with immediate effect, the following further amendment in the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

In the said Rules, in the Second Schedule, under the heading "Ministry of Home Affairs", under "Part I—Union Subjects", after entry 90, the following entry shall be inserted, namely:—

"90A. Erection of memorials in honour of freedom fighters."

ZAKIR HUSAIN,

President.

[No. 74/7/CF-68.]

RAJESHWAR PRASAD, Jt. Secy.

(589)

